

5. 2. 1 Year: 2021-22

JANATA EDUCATION SOCIETY, AJARA

AJARA MAHAVIDYALAYA, AJARA

Placement of Outgoing Students

List of Documents:

- 1. Notice**
- 2. Correspondence letter**
- 3. List of Participated student**
- 4. List of selected students**
- 5. Report**
- 6. Appointment Letter**




Ajara Mahavidyalaya, Ajara

Career Counseling Employment Guidance & CE Cell
Notice

Date- 10/05/2022

All the students fo B.Sc-III, B.Com-III, BCA-III and B.A.-III are hereby, informed that Bharati Digital Solutions of SGM Group has organised a Campus Interview, jointly with our college, on 18/05/2022 at 10:00 am. You are requested to attend the same.

Venue-IQAC Room.


I/C Principal
Ajara Mahavidyalaya, Ajara
Dist. Kolhapur - 416505

Date: - 06/05/2022

To,
Dr. A.N. Sadale
Principal,
Ajara Mahavidyalaya, Ajara

Subject :- Campus Interview for Bharari Digital Solutions on 13th May 2022

Respected Sir,

We are Bharari Digital Solutions LLP, IT-KPO in collaboration with SGM group providing services in Healthcare, Life science, Edu tech, E-commerce Domain with international clients. Website - <http://www.bhararieservices.com/>

We want to conduct a Campus Interview at your reputed institute in the Ajara area.

Please find below the Job description for Campus Interview.

Job Profile - Scheduling and Vendor Management for International E-commerce company

Type of Employment - Full Time

Joining - Immediate

Salary Range offered 10,000 to 15,000 per month.

Job Location - SGM Technical Campus, Mahagaon, site - Chinchewadi, Tal-Gadhinglaj, Dist-Kolhapur (MS)

Eligibility Criteria - 1 to 2 years' experience/ Fresher's can apply.

■ BE/B. Tech/B. Sc/ M. Sc/ BCS/ BCA/MCA/BBA/MBA/ Diploma in Engineering (More than 60 % in 10th standard.)

Selection Process - Online Test (30 Minutes) & Interview

Schedule -Date - ^{Wednesday 18th} ~~Friday~~, 13th May 2022 – (Wednesday, 18th May, 2022)

Venue - Ajara Mahavidyalaya, Ajara

Application Link - <https://forms.gle/e2tketEUp5sWf6wQ7> → (इथे ऑनलाईन अर्ज करा)

Kindly confirm the schedule and revert at the earliest on given e mail ID hr@bhararieservices.com

Best Regards,
Recruitment Team
Bharari Digital Solutions

AJARA MAHAVIDYALAYA	
AJARA	
Inward No.	108
File No.	
Date	11 MAY 2022

Rsc
Abdulla
11/5/2022




AJARA MAHAVIDYALAYA, AJARA

Career Counseling And Guidance Cell
Attendance of Campus Interview
By Bharati Digital Solutions, LLP-IT, KPO

Date- 18/05/2022

Sr.No.	Name of the students	Class	Mobile No.
1	Fernandes Paskin Kustan	B. Sc.-III	8208679487
2	Fernandes Alina Andre	B. Sc.-III	9765164769
3	Kamble Dhanashri Dipak	M. Sc.-I	7350205415
4	Patil Geetanjali Ravindra	Dip.In Com.Tec	9552208678
5	Ajagekar Pratiksha Ravindra	B. Sc.-	9689844181
6	Desai Mansi Manoj	BCA-III	8637724092
7	Amrute Tejaswini Dasharath	BCA-III	9022539241
8	Kumbhar Jyoti Pandurang	BCA-III	9067378160
9	Nirmale Shrutika Kaka	BCA-III	7058825430
10	Katkar Sejal Dattatray	BCA-III	8669548729
11	Gavade Pallavi Prakash	BCA-III	91668908910
12	Yesane Shubham Nivruti	B. Sc.-	7263013531
13	Kamble Mayur Narayan	BCA	7011799147
14	Jadhav Swagat Jaysing	BCA-III	9322094631
15	Patil Onkar Shripati	BCA	7498859337
16	Nandwedkar Rohit Rajendra	BCA	9623732477
17	Patil Swapnil Sambhaji	M. Sc.-IT	7798860028
18	Patil Ramdas Sunil	B. Sc.-III	9075777551
19	Vanjare Chetan Anil	B. Sc.-III	7766018544
20	Patekar Shridhar Gundu	B. Sc.-III	7756912512
21	Sawant Priyanka Jayvant	B. Sc.-III	7085152596
22	Kumbhar Deepali Dattatray	B. Sc.-III	9175977121
23	Bhaingade Ravina Narayan	B. Sc.-III	9529444648
24	Kamble Sujata Gautam	B. Sc.-III	7083491331
25	Kamble Ashwarya Baban	B. Sc.-III	7499983633
26	Ladji Afasana Shakil	B. Sc.-III	8080477356
27	Powar Namrata Vijay	B. Sc.-III	7083248599
28	Kamble Sanyogita Sanjay	B. Sc.-III	9764830107
29	Karekar Saloni Milind	B. Sc.-III	7350682168



Sr.No	Name of the students	Class	Mobile No.
30	Ghewade Ravina Rajesh	B.A.-III	7821065507
31	Takildar Khadija Bunyad	B.A.-III	9420009275
32	Adulkar Vithoba Pandurang	M.Sc.-Org. Che	8551909765
33	Kumbhar Satish Laxman	B.Sc.-III	9145397128
34	Tawade Parth Suresh	BCA-III	9420667433
35	Patil Shubhangi Bhimarao	B. Sc.-	8010600724
36	Patil Sonali Subhas	B. Sc.-	7887412237
37	Patil Rohini Maruti	BCA-	7620215674

Subject: Re: Campus Interview for Bharari Digital Solutions on 18th

May 2022

From: Sheetal Ghorpade <hr@bhararieservices.com> on Thu, 01 Dec 2022

16:32:05 To: ajaracollege@rediffmail.com Cc: Dr Sanjay Chavan <info@bhararieservices.com>, SGM Placement

Cell <polysgmtpo@gmail.com>

Dear Sir,

Greetings of the Day,

Thank you so much for the opportunity to conduct campus interview scheduled on 18th May 2022 at your reputed institute. Please find below the list of shortlisted students from your institute.

Sr No	Name	Qualification
1	Pratiksha Pandurang Ajagekar	Bsci
2	Mansi Manoj Desai	BCA
3	Saloni Milind Karekar	Bsci
4	Geetanjali Ravindra Patil	Bcom
5	Jyoti Pandurang Kumbhar	BCA
6	Pallavi Prakash Gawade	Bsci
7	Alisha Rujay Dsouza	BCA
8	Tejaswini Dashrath Amrute	BCA
9	Shrutika Kaka Nirmale	BCA
10	Paskin Kustan Fernandes	Bsci
11	Simran Mulla	BCA
12	Alina Andru Fernadis	Bsci
13	Dhanashri Dipak Kamble	Bsci
14	Rohini Maruti Patil	BCA
15	Sonali Subhash Patil	Bsci
16	Shubhangi Bhimarao Patil	Bsci

Thanks and Regards

HR Team,

Bharari Digital Solutions LLP.

On Wed, 11 May 2022 at 17:34, SGM Placement Cell <polysgmtpo@gmail.com> wrote:

PFB details for Whats App circulation

Campus Interview for Bharari Digital Solutions (BDS) on Wednesday, 18th May 2022 for Pass out 2021, 2020 & 2019 Batch

Job Profile - Scheduling and Vendor Management for International E-commerce company

Type of Employment - Full Time

Joining - Immediate

Salary Range offered 10,000 to 15,000 per month.

Job Location - SGM Technical Campus, Mahagaon, site - Chinchewadi, Tal-Gadhinglaj, Dist-Kolhapur (MS)

Eligibility Criteria - 1 to 2 years experience/ Fresher's can apply.

■ BE/B. Tech/B. Sc/ M. Sc/ BCS/ BCA/MCA/BBA/MBA/ Diploma in Engineering

Interview Schedule

Date - Wednesday, 18th May 2022 (10.30 am) Online Test (30 Minutes) & Interview

Venue - Ajara Mahavidyalaya, Ajara

Application Link - <https://forms.gle/e2tketEU5sWf6wQ7>

On Wed, May 11, 2022 at 4:25 AM Sheetal Ghorpade <hr@bhararieservices.com> wrote:

Respected Sir,

PFA scheduled for Campus Interview for Bharari Digital Solutions on 18th May 2022 and do the needful.

Thanks and Regards

Sheetal Ghorpade





JANATA EDUCATION SOCIETY, AJARA
AJARA MAHAVIDYALAYA, AJARA

**Carrier Counseling, Employment Guidance and Competitive
Examination Department**

Date: 19/05/2022

Report of the Campus Interview

The Representative of Bharati Digital Solution LLP, IT-KPO in collaboration with SGM Group, Mahagaon Conducted the Campus Interview in our college on 18/5/2022. The Head of the Career Counseling, Employment Guidance and Competitive Examination Department Prof. Ramesh Chavan Welcomed the Representatives. Total 37 students of various faculties appeared for them that 16 students were selected in the interview. The same report was submitted by them to the Department. Dr. V. V. Ajagekar co-operated to carry on the interview.

Carrier Counseling, Employment
Guidance and Competitive
Examination Department

I/C Principal
Ajara Mahavidyalaya, Ajara
Dist. Kolhapur - 416505

5.2.1 Placement of Outgoing student (Off campus)



Dear **NANDKUMAR PATIL**,

Congratulations! We are pleased to offer you the position of **Scholar Trainee - Work Integrated Learning Program** at Wipro.

Please click on the below link to review and accept your offer letter at the earliest using a **desktop/laptop**.

Note : You will not be able to save offer letter copy if you open the below link through a Mobile Phone.

We request you to accept the iCIMS Offer Letter within 14 days from the receipt of the offer Letter, failing which we will be forced to infer that you are no longer interested to be a part of Wipro fresher hiring process.

Steps to follow to accept and save the Offer Letter

To save your copy of Offer Letter, please open this email on desktop/ laptop, login to below mentioned acceptance link, **click on Accept -> click on signature check box -> Click on "Submit and Print" -> Click on "web browser" -> ctrl+P -> save as pdf -> save -> select destination on your system to download.**


Please note - You will not be able to access the Offer Letter again if you close the window without saving your Offer Letter as the link will expire and will not be able to access the link to open offer page to download the offer letter.

Please click on the link below to review and accept your enrollment letter at the earliest using a **desktop/laptop**.
[Click to Complete](#)

Your Login Information:

Login Name: **nandkumarpatil2001@gmail.com**

(If you do not know your password, you can reset it by [clicking here.](#))



August 10, 2022

Welcome to Wipro's Work Integrated Learning Program ("WILP")

Work Integrated Learning Programme
Wipro Limited, Dodda Kannelli
Sarjapur Road, Bengaluru - 560 035.
Phone: (080) 28440011/12, Fax: (080) 28440256

Dear Pankaj Rane,

Sub: Enrolment letter to Wipro's Work Integrated Learning Program ("WILP") as Scholar Trainee – Work Integrated Learning Program

Welcome to WILP!

With reference to your application, it is our pleasure to enroll you as a Scholar Trainee – Work Integrated Learning Program. This is a scholarship program customized as a robust academic and training program which will enable you to obtain M-Tech degree from one of the premier engineering institution / University in India.

The duration of the academic program shall be 48 months from the **date of enrolment to the academic program**. You will be enrolled into the academic program within 12 months from date of joining. Your date of joining will be intimated through a separate communication.

We hope you enjoy the learning with WILP and have an enriching experience being a part of Wipro Limited ("Wipro or "Company").

Please read through the terms and conditions of your enrolment as provided below.

We look forward to having a long and fruitful relationship with you at WILP, Wish you all the best!

Yours sincerely,
For **Wipro Limited**,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aparna Shailen", is written over a horizontal line.

Aparna Shailen
General Manager - Human Resources
Endorsement



Wipro Enrollment Letter

Inbox



Wipro offer letter Mar 31

to me ▾



March 31, 2022

Dear **Abhishek Donkar**,

Congratulations! We are pleased to offer you the position of **Scholar Trainee - Work Integrated Learning Program** at Wipro.

Please click on the below link to review and accept your offer letter at the earliest using a **desktop/laptop**.

Note : You will not be able to save offer letter copy if you open the below link through a Mobile Phone.

We request you to accept the iCIMS Offer Letter within 15 days from the receipt of the offer Letter, failing which we will be forced to infer that you are no longer interested to be a part of Wipro fresher hiring process.

Steps to follow to accept and save the Offer Letter

To save your copy of Offer Letter, please open this email on desktop/ laptop, login to below mentioned acceptance link, **click on Accept -> click on signature check box -> Click on "Submit and Print"**

CN102225324

Model Contract of Apprenticeship Training for Major/Minor* Apprentices

1. Name and Registered Address of Establishment : YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS (E07192700003)
- with Telephone no. & E-mail address : YASHASWI HOUSE, LANE No 15, PRABHAT ROAD,
PUNE Pune, Maharashtra
- : 020-67492727
- : N/A
2. (a) Name of Apprentice (Block Letters) : VISHAL SHIVAJI SUTAR (A0922117379)
- (b) Father's/Mother's /Spouse's Name : Shivaji
3. Address of apprentice : A/P: ARDAL TAL: AJARA DIST:KOLHAPUR, AJARA, Kolhapur,
Maharashtra
4. Gender : Male
5. Date of Birth : 26-06-1999
6. (a) Whether belongs to SC/ST/OBC/PwD/ Minority : Yes
- (b) Name of the Category : Obc
7. Educational Qualification (Highest) : Graduate - B.Sc
8. (a) Category of Apprenticeship : Optional
- (b) Name of the trade for which Apprentice is training : Chemist - Production (Pharma, Cosmetics & Biologics): API Manufacturing
9. (a) Whether Basic Training is to be provided as part of Apprenticeship : Yes
- (b) If Basic Training is exempt - reason for exemption
- (i) Name of the Course : N/A
- (ii) Duration of Training/Course : N/A
- (iii) Name of the Institute : N/A
- (iv) Name of the Sector Skill Council (if applicable) : N/A
10. Apprenticeship Training duration (Total) : 2023 Hours
- (a) Duration of Basic Training : 7 Hours
- Period of Basic Training : From 13-10-2022 to 13-10-2022
- (b) Duration of On-the-Job Training : 2016 Hours
- Period of On-the-Job Training : From 14-10-2022 to 08-10-2023
- (c) Training Type : Sequential
11. Apprenticeship Training Location : Enzene Biosciences LTD CHAKAN
- (a) Name and address of facility where Basic Training is to be provided : YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS
- : International Institute of Management Science
- :
- (b) Name and address of the facility where On-the-Job Training is to be provided : YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS
- Enzene Biosciences LTD CHAKAN
- Pune
- Maharashtra
12. (a) Date of execution of contract : 13-10-2022
- (b) Age of Apprentice on the date of execution of contract : 23 years, 3 months and 17 days
13. Is the establishment opting for benefits under NAPS*? : Yes
- *If yes, Annexure 2 to this contract will also be applicable.



14. Monthly stipend amount

- (a) During 1st year of training : 15000
(b) During 2nd year of training : N/A
(c) During 3rd and 4th year of training : N/A

The Establishment agrees and understands that the minimum monthly stipend amount is prescribed in the Rule 11(1) of Apprenticeship Rule, 1992. The Establishment confirms that the agreed monthly stipend amount entered above must be higher than these minimum rates.

If the minimum rates are modified through legislation (either through modification of rules, or through modification of minimum wages payable) during the course of apprenticeship, this revised rates will apply as the minimum payable to Apprentice

15. (a) Name and Address of Guardian In case Apprentice is under 18 years of age (Minor) : N/A

- (b) Relationship with the Apprentice : N/A

16. (a) Whether Apprentice was identified through approved Third Party Aggregator : Yes

- (b) Name of TPA (if applicable) : YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS

17. We, the Establishment, Apprentice/Guardian solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 and the Apprenticeship Rules, 1992 as amended from time to time, regarding the contract of apprenticeship training including obligations and terms and conditions contained in Schedule V and VI of the said rules and will comply with the same.

18. I, the Apprentice, declare that all details shared by me, including educational qualifications and other personal information shared, is correct and will provide original documents for verification at any time

19. We, the Establishment, have examined the Apprentice's information, including personal details, and will seek relevant documentation for verification as and when required.

20. In case of default by either the apprentice or the employer, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Rules may be seen in the Annexure 1).

21. The Establishment, Apprentice/Guardian hereby also declares to comply with the terms and conditions of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS), if applicable.


Vishwesh Kulkarni
Director

Signature of the
Employer with seal



Signature of Apprentice

Signature of Guardian

मेल द्वारा

मुख्यालय गुजरात सीमांत, सी०सु०बल
पो०-सी०सु०बल परिसर, चिलोडा रोड
गाँधीनगर (गुजरात) -382045

नं०.स्था (भर्ती) /सी०सु०गुज०/आ(सा०)-18/22/ **OOA/1185-1186**

दिनांक **22** नवम्बर 2022

प्रेषित,

Roll No. **7203715211**
Name: **POWAR KALPESH SHRIPATI**
S/O : **SHRIPATI**
Address : **AT- VELVATTI POST- TAL- AJARA**
Distt-KOLHAPUR (Maharashtra), Pin-416505
Email : **kalpeshpowar96@gmail.com**

विषय:- सीमा सुरक्षा बल में कर्मचारी चयन आयोग के आधार पर आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)-2021 के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

Sub:- **OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD)- 2021 IN BSF THROUGH STAFF SELECTION COMMISSION (SSC)**

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में अस्थाई तौर पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के भाग-‘क’ अनुसूची (नियम 3(VI) और 7(2) देखें) के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 में रु. 21,700/- प्रतिमाह के मूल वेतन के साथ समय-समय पर नियमानुसार लागू अन्य भत्तों के साथ आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है। महानिदेशक तथा सीमा सुरक्षा बल के समस्त सदस्यों की ओर से आपका इस “सर्वोत्कृष्ट बल” का सदस्य बनने के लिए स्वागत है, जिसने तमाम विश्व के “सीमा सुरक्षा बलों” की विशिष्ट मंडली में, चाहे शांतिकाल हो अथवा युद्धकाल, अपना स्पृहणीय स्थान कायम किया है।

I am directed to inform you that, you have provisionally been selected for appointment as Constable(GD) in BSF on initial Basic Pay of Rs.21,700/- per month under Level-3 in the pay matrix as per scheduled [(See Rule-3(vi) & 7(2)] Part a of CCS (Revised Pay) Rules,2016 plus other allowances admissible under rules from time. On behalf of the DG & all ranks of Border Security Force you are welcome to join “**The Elite Force**”, which has earned an enviable position for itself in the galaxy of “**Border Guarding Forces**” of the world, be it in peace or in war.

2. उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी:-

2. Your appointment to the said post is subject to the following terms and conditions:-

- क. आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम-1968 एवं सीमा सुरक्षा बल नियम-1969 यथा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर जारी किए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- a) You will be governed by the provisions of BSF Act 1968 and BSF Rules 1969 as amended from time to time and other relevant Central Government Orders, Rules and Regulations.
- ख. प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए आप परिवीक्षाधीन होंगे, जिसे नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अगली अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष तक हो सकती है तथा ऐसा किए जाने के कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियोक्ता प्राधिकारी के मत में आप बल का दक्ष सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- b) Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Border Security Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason.

PTO

- ग. यह पद अस्थायी है, किन्तु भविष्य में इसे स्थाई बना दिए जाने की संभावना है। यदि अस्थायी पद का उन्मूलन हो जाता है तो ऐसे में बिना कोई कारण बताए आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- c) The post is temporary but likely to be made permanent in due course. In case the temporary post is abolished, your services shall be terminated without assigning any reason.
- घ. यदि आप अपनी सेवा के 10 वर्षों के भीतर केन्द्र या राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किए गए नौकरी के किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जिसके लिए आपको कैडर क्लियरेंस प्रदान किया गया हो, के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से सेवात्याग का आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे में आपके द्वारा प्रशिक्षण-लागत अथवा पिछले तीन महीने में प्राप्त वेतन एवं भत्तों में से जो भी अधिक हो, उस राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही आपका सेवात्याग स्वीकार किया जायेगा। यदि उस समय तक आपके तीन महीनों की सेवा पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे में आपके तीन माह के वेतन एवं भत्तों का आकलन आपको उस माह में देय वेतन एवं भत्ते के आधार पर किया जाएगा जिसमें आप सेवात्याग कर रहे हैं।
- d) If you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central or State Govt. or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation may be accepted only after you refund the training cost or 3 months' pay and allowances last drawn by you to the Govt. or if you do not complete three months service, on the basis of pay and allowances to which you are entitled in the month in which you tender your resignation, whichever is higher.

3. नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई हो प्रस्तुत करना होगा:-

3. You will be required to produce following original documents along with a photocopy of each attested by a Gazetted Officer at the time of completing appointment formalities:-

- क. समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई।
- a) Original certificate of education along with photo copies of all certificates duly attested by GO.
- ख. आयु-प्रमाण के रूप में मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष शिक्षा का प्रमाण-पत्र।
- b) Matriculation or equivalent certificate as proof of age.
- ग. दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार।
- c) Character certificate from two Gazetted Officers as per proforma attached.
- घ. यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा कर रहे हैं तो उसके समर्थन में विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, होना चाहिए।
- d) Certificate in the prescribed format issued by notified competent authority in support of your claim of belonging to Schedule Caste, Schedule Tribe or OBC.
- च. यदि आप किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन में सेवारत हों तो, आपको मूल विभाग द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- e) If you are serving in Govt/Semi-Govt service, discharge/release certificate from parent department in the prescribed format.
- छ. पासपोर्ट आकार के तीन फोटोग्राफ।
- f) Three passport size photographs.
- ज. अधिवास/निवास प्रमाण पत्र।
- g) Domicile/residential certificate.
- झ. पैन कार्ड।
- h) Pan card.
- ञ. आधार कार्ड।
- i) Aadhar Card.
- ट. बैंक अकाउंट नंबर, चेक बुक के साथ बैंक के वाय.सी प्रक्रिया पूर्ण करके लाएं।
- j) Bank Account Number, Cheque book with completing all bank KYCs procedure.

- ठ. आपके पास दो से तीन माह के स्वयं के खर्च हेतु 10,000/- रुपये होना चाहिए।
k) Individual to bring Rs.10, 000/- for own expense up to two or three months.
ड) स्थाई मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी.
l) Permanent mobile number and E-mail I.D.

आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता एवं एटीएम कार्ड होना अतिआवश्यक है जिसमें आपके वेतन व भत्तों का वितरण किया जा सके।
You must have your own SBI account and ATM Card for disbursement of pay and allowances to your account.

4. पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए आपको यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
4. You will not be entitled for any TA/DA on joining your first appointment.
5. यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्नलिखित के अधीन होगा:-
5. This offer of appointment is further subject to:-
- क. सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 का उपबंध जिसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है।
a) Provision of Rule 7 of BSF Rules-1969 that envisage that a person who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living or who having a spouse has entered into or contracted a marriage with any person shall not be eligible for appointment in the Force.
- ख. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/वफादारी का शपथ-ग्रहण (या विहित फॉर्म में की गई इस आशय की घोषणा)
b) Taking an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or making affirmation to that effect in the prescribed form).
- ग. उपरोक्त में किसी भी शर्त के पूरा होने की स्थिति में, आपके द्वारा दायर किसी भी क्षति अथवा नुकसान के दावे पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
c) In case any of above conditions is not fulfilled, the Department will not entertain any claim for damages and other losses suffered by you.
6. आपको एक निश्चित अवधि के लिए बुनियादी प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। यदि बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको बल में आगे की सेवा हेतु अयोग्य समझा जायेगा।
6. You will be put through prescribed course of Basic Training for a specific period. Failure in Basic Recruit Training shall render you unfit for further retention in the Force.
7. इस नियुक्ति में भारत के किसी भी भाग अथवा विदेश में सेवा का दायित्व समाहित है।
7. You shall be liable to serve in any part of India or abroad.
8. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा ऊपर दी गई शर्तों, चरित्र, पूर्ववृत्त व जाति/जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम द्वारा सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि आपका कोई भी दावा / सूचना झूठी है तो आपकी सेवाएँ बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण पत्र / सूचना प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आगे जो कार्यवाही की जा सकती है, उसको प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।
8. The appointment is provisional and subject to the conditions mentioned above and your character and antecedents, education and the caste/tribe/OBC certificates being verified. If the verification reveals that any of your claim/information is false, your service shall be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may take under the provisions of Indian Penal Code/BSF Act & Rules.
9. यदि आपके द्वारा की गई घोषणा/दी गई सूचना झूठी पाई जाती है और यह प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया गया है तो आपके विरुद्ध सीसुबल अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
9. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to face action under the provisions of BSF Act & Rules.

10. आप जनवरी 2004 से केंद्रीय सेवा में नवप्रवेशित लोगों के लिए लागू नई पुनर्संजित "परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। अतः आपको अपनी नियुक्ति की तिथि से अपने वेतन तथा महगाई भत्ता के 10% के बराबर की राशि का अंशदान नवीन पेंशन प्रणाली में करना होगा।

10. You will be entitled to the pensionary benefits as per new restructured defined **CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM** applicable for new entrants to the Central Govt. service from Jan 2004. Therefore, you would make monthly contribution @ 10% of the Basic pay and DA towards the new pension system from the date of appointment.

11. यदि आपको यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की औपचारिकतायें पूरी करने तथा आगे की ड्यूटी के लिए आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को कार्यालय, कमांडेंट, 3 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, रामबाग पोस्ट-गॉंधीधाम, जिला-कच्छ, राज्य-गुजरात पिन-370205 को रिपोर्ट करें।


11. If you accept this offer of appointment, you will report to Office of the Commandant, 3 Bn BSF, RAMBAGH, PO-GANDHIDAM, Distt-KUTCHH (GUJARAT) Pin - 370205 on 21 Dec 2022 (21.12.2022) for completion of enrolment formalities and further duties.

12. यदि आप दिनांक 21 दिसम्बर 2022 (21.12.2022) को उपरोक्त दर्शाये गये पते पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जायेगा।

12. If you fail to join at above mentioned address on 21st Dec 2022 (21.12.2022), this Offer of Appointment will stand cancelled automatically.

संलग्नक:- चरित्र प्रमाण पत्र का पारूप

Encl: - Character Certificate proforma



पीठासीन अधिकारी

सीमांत मुख्यालय सी०सु०बल, गुजरात

प्रतिलिपि:-

1. कमांडेंट 3 वी वाहिनी सी०सु०बल

: वास्ते सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि उम्मीदवार के आगमन के पश्चात् मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरांत औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करें।

2. हिन्दी गार्ड फाईल (2154 शब्द)

ANNEXURE-VI
CHARACTER CERTIFICATE

Certified that I have known Mr.....
S/O Mr.foryear month and that
to the best of my knowledge and belief the bears reputation character and has no
antecedents with render him unsuitable for Government employment.

Mr.....is not related to me.

Place :.....

Date:

Signature

Designation

I am satisfied about the reliability of the person who has given the above certificate
of character.

Place :.....

Date:

Signature

**District magistrate or
Sub Divisional Magistrate
or their superior officer**

Appointment Letter of Tejaswini Dasharath Amrute



दि आजरा अर्बन को-ऑप बँक लि; आजरा(मल्टी-स्टेट)
The Ajara Urban Co-Op. Bank Ltd; Ajara. (Multi- State)

पु.रा.ल.न. ६३१६६

दि. 29 AUG 2022

प्रति,

तेजस्विनी दशरथ आमृते

रा-हाळोली, ता.-आजरा, जि.कोल्हापूर

महाशय,

आपण मुख्य कार्यालय आदेशाप्रमाणे बँकेच्या मुख्य कार्यालय आजरा कडे
दि.०१/०९/२०२२ रोजी हजर होवून तेथे दैनिक वेतनावरील लिपिक म्हणून काम
पहाणेचे आहे.

चे अ र म न

Personal & Confidential

Tentative Date of Joining : 15-11-2022

Name : SIMRAN SHABBIR MULLA

Location : Kolhapur

Dear SIMRAN,

Further to the interview & discussion you had with us, we are pleased to offer you as Retail Branch Banking-Branch Sales Officer, in Branch Banking - Retail Branch Banking at Ajara, Kolhapur on the following terms and conditions:

Sales Officer

SALARY COMPUTATION		
Components	Per Annum	Per Month
Basic	162000	13500
HRA	30000	2500

(The above compensation will be payable to you every month in the salary. You may claim income tax exemption as applicable within the parameters of the applicable tax structure)

Provident Fund:

You will be covered under the Bank's Provident Fund Trust. The Bank shall contribute 12% of your base salary towards provident and pension funds in accordance with applicable laws.

The details of your remuneration and benefits are given in Annexure.

1. Probationary Period:

1.1 You will be on probation for a period of six months or such extended period as may be decided by the Bank based on your performance during the probation period.

1.2 On satisfactory completion of your probation period, including that of extended period, if any, you will be confirmed in the services of the Bank in writing.

2. Notice Period:

2.1 In case you decide to leave the Banks services after confirmation, you will be required to give thirty days notice. The bank in its sole discretion can decide to waive off/reduce the notice period depending upon the exigencies. In such case, you would be required to pay the Bank the salary for the notice period so reduced/waived off. Bank, after confirmation at its discretion can decide to relieve you by giving months notice or Salary in lieu of notice.

2.2 In case you decide to leave the Banks services during probation period, you will be required to give fifteen days notice. The bank in its sole discretion can decide to waive off/reduce the notice period depending upon the exigencies. In such case, you would be required to pay to the Bank the salary in lieu of the notice period so reduced/waived off. Bank, during your probation, at its discretion can decide to



We understand your world

relieve you by giving fifteen days notice or Salary in lieu of notice.

HDFC bank Ltd.,
I-Think Techno Campus,
Building Alpha,Next to Kanjur
Marg Railway Station(East)
Kanjur Marg(E),
Mumbai-400 042

3. Job description:

Your duties and responsibilities will be explained to you on your joining the bank. However, you shall execute and perform all such duties that may be assigned to you by the Bank from time to time and the Bank reserves its right to change these at its discretion.

4. Location & Transfer:

Your initial place of posting will be Mumbai. However, the Bank reserves the right to transfer you to any other Office/Branch, Subsidiary or Associate Company of the Bank, in India, that is in existence or may come into existence at a future date.

5. Secrecy:

It is a condition of your employment that you will not, for whatever reason, divulge without an express written authority from the Management, any information relating to the Bank or any of its constituents or employees, as received by you in the course of your employment and after the cessation of your employment with the Bank.

6. Alternative Employment:

During the course of your employment with the Bank, you will not engage yourself directly or indirectly in any trade, business, occupation, employment, service or calling whether for remuneration or otherwise, without the prior written consent of the Bank. Any act in contravention of the above provision shall entail initiation of appropriate action as deemed fit by the Bank.

7. Termination of employment:

Notwithstanding anything contained in the above paragraphs, your services may be terminated by the Bank if you are found to be indulging in acts of Commission/ Omission which may be prejudicial to the interests of the Bank or any act of dishonesty, disobedience, insubordination, suppression of facts, falsification of documents or any other misconduct or neglect of duty or incompetence in the discharge of duty on your part.

8. Conditions Precedent:

a) Bank reserves the right to seek references from your current / previous employer (s), at any stage, subsequent to your acceptance of this offer letter.

b) The self-declaration given by you in respect of your medical fitness is in order.

c) The Bank receiving attested copies of all your degrees and professional qualifications certificates, if any.

d) Your successful completion of Graduate/Post Graduate/Professional course which is currently ongoing or the results are awaited and basis which you have been interviewed and offered and submission of pass certificate within one month of publication of result.(If applicable)

e) The terms and conditions set out in this letter of appointment constitute service conditions applicable to your employment in the Bank and with regard to any dispute arising thereof, the Mumbai Courts will have exclusive jurisdiction.

f) This Offer has been extended to you basis your representation, information and details provided by you during the interview and subsequent to your submitting of your personal information, requisite details, documents, educational qualification and work experience certificates, etc. uploaded by you on HDFC Bank Career Site/ E-Rec portal for seeking an employment with HDFC Bank. By accepting this Offer, you confirm that all the details filled in and the documents uploaded on HDFC Bank Career Site/ E-Rec portal are true and

correct. In case any discrepancy is found in the information and details provided by you at any stage of your association with HDFC Bank, HDFC Bank reserves its right to take appropriate action against you at Bank's discretion

Please note that you have an option to reject or accept this offer. If you are agreeable to the above mentioned terms and conditions, please accept the offer online by clicking "Accept" tab/button in the portal/system by using your login ID and password within above mentioned date of uploading this Offer in the portal/system. In case no acceptance is received by us within above mentioned period, we presume that you have no interest to proceed further and accordingly the Offer Letter shall be deemed to be withdrawn.

We welcome you to HDFC BANK and look forward to having a long and mutually beneficial association with you.

Yours truly,



Ranga Subramanian

For HDFC Bank Limited
Vertical Head HR – Sales

This offer letter is a system generated Offer Letter with electronic signature of HDFC Bank Ltd.'s authorised signatory and hence no Offer Letter with wet signature is provided additionally.

Remuneration:

SALARY COMPUTATION		
Components	Per Annum	Per Month
Basic	162000	13500
HRA	30000	2500

Incentives:

You will be eligible for monthly Performance Linked Incentive Pay, as per the policy of the Bank.

Benefits:

- You will also be eligible for Retirement Benefits of the Bank; namely Provident Fund and Gratuity, in accordance with the statutory requirements and /or, as per Bank policy
- Total Mediclaim cover of Rs.1,00,000/- for self and spouse (Parents and Children not covered).

I read & understand the Annexure – A

Signature of Applicant

Name: SIMRAN SHABBIR MULLA

Date: 15-11-2022

Important Note on Grooming Standards

As employees of HDFC Bank, we, in our interactions with customers, clients, vendors and business associates, are the face of the Bank. It is therefore imperative that each of us applies a certain amount of prudence in the choice of our attire and grooming standards. **Office attire should be smart and appropriate for conducting business on behalf of the Bank at all times.**

Grooming standards for Men

Hair- Should be conservative, well maintained and cut short. Moustaches / beards neatly trimmed or face clean shaven - daily maintenance mandatory. After-shave (optional)

Attire- Formal wear: Trousers must be in dark to medium colour tones (black, brown, navy blue, gray or beige) Shirts should be with full-length sleeves and worn with a tie (mandatory). If the occasion so demands (formal function / business call to an important Corporate / Client etc.) a blazer or suit appropriately chosen for the weather should be worn. Saturdays: Smart casuals are acceptable, Semi formal trousers, Denim trousers, Collared T-shirts, Semi-formal shirts, Shirts with checks

Footwear- Leather laced shoes with socks and coordinated with the trousers and belt. Socks must be in basic colours (black, brown, dark blue, gray or beige), coordinated with the trousers and calf length. Only on Saturdays, semi formal shoes in leather, calf leather or suede.

Others- Neatly cut short nails, No ornaments except for obligatory ring or kada.

Grooming standards for Women

Hair- Should be simple and clean, neatly combed at all times. Long hair may be tied in a bun or a plait Indian formal wear: Indian saris, Salwar suits.

Western formal wear: Suits in basic colours. Preferably in black, dark brown, navy blue, beige or very light shades

Attire- Formal shirts with formal trousers or skirts. Saturdays: Smart casuals are acceptable, Full length denim trousers, Skirts, Kurtis, Semi formal blouses and tops

Footwear- Leather sandals or sandals of similar material , Closed shoes, Shoes must be well coordinated with clothes.

Others- Neatly cut nails, Simple elegant ornaments, Basic daywear makeup along with perfume/deodorant

CN102225009

Model Contract of Apprenticeship Training for Major/Minor* Apprentices

1. Name and Registered Address of Establishment : Enzene Biosciences Ltd (E07202700042)
- with Telephone no. & E-mail address : Chakan Sawardari,, PunePune, Maharashtra
- : 020-27334000
- : N/A
2. (a) Name of Apprentice (Block Letters) : OMKAR ARUN YEJARE (A0922117535)
- (b) Father's/Mother's /Spouse's Name : ARUN
3. Address of apprentice : A/P :Halewadi TAL: Ajara DIST: Kolhapur, AJARA, Kolhapur, Maharashtra
4. Gender : Male
5. Date of Birth : 04-06-2001
6. (a) Whether belongs to SC/ST/OBC/PwD/ Minority : No
- (b) Name of the Category : General
7. Educational Qualification (Highest) : Graduate - B.Sc
8. (a) Category of Apprenticeship : Optional
- (b) Name of the trade for which Apprentice is training : Chemist - Production (Pharma, Cosmetics & Biologics): API Manufacturing
9. (a) Whether Basic Training is to be provided as part of Apprenticeship : No
- (b) If Basic Training is exempt - reason for exemption
- (i) Name of the Course :
- (ii) Duration of Training/Course : N/A
- (iii) Name of the Institute :
- (iv) Name of the Sector Skill Council (if applicable) : N/A
10. Apprenticeship Training duration (Total) : 2016 Hours
- (a) Duration of Basic Training : N/A
- Period of Basic Training : N/A
- (b) Duration of On-the-Job Training : 2016 Hours
- Period of On-the-Job Training : From 17-10-2022 to 17-10-2023
- (c) Training Type : Sequential
11. Apprenticeship Training Location : Chakan , Pune
- (a) Name and address of facility where Basic Training is to be provided : N/A
- (b) Name and address of the facility where On-the-Job Training is to be provided : Enzene Biosciences Ltd
- Chakan , Pune
- Pune
- Maharashtra
12. (a) Date of execution of contract : 12-11-2022
- (b) Age of Apprentice on the date of execution of contract : 21 years, 4 months and 9 days
13. Is the establishment opting for benefits under NAPS*? : Yes
- *If yes, Annexure 2 to this contract will also be applicable.
14. Monthly stipend amount
- (a) During 1st year of training : 15000
- (b) During 2nd year of training : N/A



(c) During 3rd and 4th year of training

: N/A

The Establishment agrees and understands that the minimum monthly stipend amount is prescribed in the Rule 11(1) of Apprenticeship Rule, 1992. The Establishment confirms that the agreed monthly stipend amount entered above must be higher than these minimum rates.

If the minimum rates are modified through legislation (either through modification of rules, or through modification of minimum wages payable) during the course of apprenticeship, this revised rates will apply as the minimum payable to Apprentice

15. (a) Name and Address of Guardian In case Apprentice is under 18 years of age (Minor) : N/A

(b) Relationship with the Apprentice : N/A

16. (a) Whether Apprentice was identified through approved Third Party Aggregator : Yes

(b) Name of TPA (if applicable) : YASHASWI ACADEMY FOR SKILLS


17. We, the Establishment, Apprentice/Guardian solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 and the Apprenticeship Rules, 1992 as amended from time to time, regarding the contract of apprenticeship training including obligations and terms and conditions contained in Schedule V and VI of the said rules and will comply with the same.

18. I, the Apprentice, declare that all details shared by me, including educational qualifications and other personal information shared, is correct and will provide original documents for verification at any time

19. We, the Establishment, have examined the Apprentice's information, including personal details, and will seek relevant documentation for verification as and when required.

20. In case of default by either the apprentice or the employer, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Rules may be seen in the Annexure 1).

21. The Establishment, Apprentice/Guardian hereby also declares to comply with the terms and conditions of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS),if applicable.



Signature of the
Employer with seal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line extending to the right.

Signature of Apprentice

Signature of Guardian

FOR OFFICE USE ONLY

Contract Registration No. : CN102225009
(To be given by the Office of the Apprenticeship Adviser)
(Mandatory only for Registered Trades)

Auto-Approved

Signature of Registering Authority
(Apprenticeship Advisor)
(Registration required for Designation trade only)

Annexure 1 Contract of Apprenticeship Training

Some provisions of the Apprenticeship Rules relating to the Contract of Apprenticeship Training are reproduced below for sake of convenience.

Both the Establishment and Apprentices have read and are bound by the provisions of the directions in have read the Apprentices Act, 1961 and the Apprenticeship Rules, 1992, which will apply to this Contract of Apprenticeship

1. The stipend for a particular month shall be paid by the tenth day of the following month. No deduction shall be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave. Stipend shall, however, not be paid for the period for which an Apprentice remains on extraordinary leave.
2. Where the Contract of Apprenticeship is terminated through failure on the part of the employer in carrying out the terms and conditions of the Contract (as notified under the Apprenticeship Rules, 1992), he shall pay to the apprentice compensation as determined by Apprenticeship Advisor.
3. In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and condition of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules, 1992), the apprentice hereby guarantees to employer the payment of such amount as determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

Annexure -2 | Covenants and conditions specific to NAPs scheme

1. For availing benefit under NAPS scheme, the course under which apprenticeship training is being provided, should be NSQF aligned.
2. Assessment and Certification shall be done jointly by the establishment and SSC/ NCVT/ other bodies as notified from time to time under NAPS guidelines.
3. The Establishment warrants and confirms that they have studied, understood and agree to comply with the guidelines that are applicable to Establishments that are part of the NAPS scheme. These guidelines are published at (<https://www.apprenticeshipindia.gov.in>) and maybe updated from time to time.